



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 1, 1984/वैशाख 11, 1906

No. 204]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 1, 1984/VAISAKHA 11, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय
नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1984

आदेश

का० आ० 343(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक
अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि (कीमत नियंत्रण)
आदेश, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश करती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 1984 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 की तृतीय अनुसूची में शीर्ष प्रवर्ग II विनिमित्तियों के नीचे क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

“3. क्लोरम्फेनिकोल औरल विनिमित्तियां जिसके अन्तर्गत क्लोरम्फेनिकोल पॉलिमेट और क्लोरम्फेनिकोल मोनोस्टेरयल ग्लाइकोलेट सस्पेंशन और सोरप

तथा क्लोरम्फेनिकोल सोडियम सक्सीनेट इंजेक्शन योग्य भी हैं।”

[सं० 8(10) 82-औषधि-II]

MINISTRY OF CHEMICALS AND
FERTILIZERS

[Office of Development Commissioner (Drugs)]
New Delhi, the 26th April, 1984

ORDER

S.O. 343(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1979, namely :-

- (1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Eleventh Amendment Order, 1984.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Drugs (Prices Control) Order, 1979, under the heading Category II formulations for serial number 3 and the entries

relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

देश में निर्मित क्लोरम्फेनिकोल मोनोस्टेरल ग्लाइकोलेट का विक्रय किया जाएगा ।

“3. Chloramphenicol oral preparations including chloramphenicol palmitate and chloramphenicol monosteryl glycolate and suspension and syrup and chloramphenicol sodium succinate injectable.”.

फा० सं० 8(10) 82-डी० II)

ई० एन० मूर्ति, उय सचिव

[No. 8(10)|82-Drug II]

ORDER

S.O. 344(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 666 per kg. as the maximum sale price at which Chloramphenicol Monosteryl Glycolate, manufactured indigenously, shall be sold.

आदेश

का० आ० 344(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 666 रुपए प्रति किलोग्राम की उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर

[No. 8(10)|82-D.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.